

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 439]

नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 मई 2025 — वैशाख 31, शक 1947

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20 मई 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 07-60/2024/32.— राज्य शासन एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अन्तर्गत दुर्ग-भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में अत्यावश्यक लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुए सूचना दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में एक दिन प्रकाशित की गई थी :-

दुर्ग-भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में उपांतरण

क्र.	ग्राम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा	दुर्ग-भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 अनुसार भू उपयोग	अधिनियम की धारा 23-क के तहत उपांतरण
1.	कसारीडीह (सिविल लाइन दुर्ग)	858/1 का भाग	5.015	वाणिज्यिक	आवासीय
		862 का भाग	3.141		
		874/2 का भाग	0.860		

- उक्त उपांतरण छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की रिडेवलपमेंट योजना हेतु है।
- सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।
- अतः राज्य शासन एतद् द्वारा दुर्ग-भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है। उक्त उपांतरण दुर्ग-भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 का अंगीकृत भाग होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी.तिकी, संयुक्त सचिव.